



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 श्रावण 1931 (श0)  
(सं0 पटना 437) पटना, बुधवार, 19 अगस्त 2009

सं० अ0सं0क0-14-07/2007/536

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

संकल्प

10 अगस्त 2009

विषय:—अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के 15-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन समीक्षा एवं प्रतिवेदन भेजने हेतु राज्यस्तरीय समिति का पुनर्गठन ।

प्रस्तावना:—अल्पसंख्यकों को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक न्याय एवं समानता प्रदान करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ नया 15-सूत्री कार्यक्रम घोषित है । इस कार्यक्रम के प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं प्रगति प्रतिवेदन भेजने हेतु सरकार के दिशा निदेश के आलोक में एक राज्यस्तरीय समिति का गठन किया जाना है ।

संकल्प:—राज्य सरकार द्वारा 15-सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का पुनर्गठन निम्न प्रकार किया जाता है:-

- |   |            |
|---|------------|
| (1) मुख्य सचिव -  | अध्यक्ष    |
| (2) 15-सूत्री कार्यक्रम के अधीन योजना लागू करने वाले विभागों के प्रधान सचिव/सचिव<br>अथवा विभाग प्रमुख         | सदस्य      |
| (3) पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)   | सदस्य      |
| (4) अल्पसंख्यकों से सम्बद्ध ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संगठनों के तीन प्रतिनिधि<br>(राज्य सरकार द्वारा मनोनीत) | सदस्य      |
| (5) तीन अन्य व्यक्ति जिन्हें राज्य सरकार उपयुक्त समझे (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)                             | सदस्य      |
| (6) उप सचिव, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग  | सदस्य-सचिव |

2. समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार होगी तथा केन्द्र सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को अपना प्रतिवेदन भेजेगी ।
3. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
अफज़ल अमानुल्लाह,  
सरकार के प्रधान सचिव ।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 437-571+50-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>